

प्रेस नोट दिनांक 29.06.2022
थाना किला जनपद-बरेली ।

थाना किला क्षेत्रान्तर्गत कल दिनांक 28.06.2022 को अपनी पत्नी के ऊपर तेजाब डालने वाले अभियुक्त ईशाक (पति) को थाना किला पुलिस ने किया गिरफ्तार ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान क्रम में, श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल नेतृत्व व पर्यवेक्षण में, श्रीमान पुलिस उपाधीक्षक नगर द्वितीय के कुशल नेतृत्व में गठित टीम के सदस्य प्रभारी निरीक्षक किला व टीम के द्वारा वादी के द्वारा दिनांक 28.06.2022 को पंजीकृत कराया गया मु0अ0स0-173/2022 धारा 307/326ए/452 भा0द0वि0 व 3/4 (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधि0 2019 मे वांछित अभियुक्त इशाक पुत्र श्री मुन्ने निवासी मो0 जुगन वाली गली मलूकपुर थाना किला जिला बरेली को मुखबिर की सूचना पर सिटी सब्जी मण्डी के पास से गिरफ्तार किया गया । वाद गिरफ्तारी अभियुक्त से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ की गयी तो अभियुक्त ने बताया कि मेरी शादी लगभग 11 वर्ष पूर्व नसरीन पुत्री मुख्तियार निवासी जुगन वाली गली मलूकपुर थाना किला जिला बरेली से हुई थी । जिसे मैंने लगभग एक माह पहले मुख जबानी तीन बार तलाक दे दिया गया था तथा मेरी पत्नी मेरे मकान के पड़ोस में ही रह रही थी । मुझसे उत्पन्न दो पुत्रिया भी मेरी पत्नी के पास थी मैं अपनी पुत्रियों को अपने पास रखना चाहता था पत्नी के द्वारा मेरी पुत्रियों को न दिये जाने पर मेरे द्वारा अपनी पत्नी से अक्सर विवाद होता रहता था । दिनांक 28.06.2022 को मैं अपने साथ अपनी पत्नी को जान से मारने की नियत से एक प्लास्टिक की शीशी में तेजाब लेकर दोपहर के समय 12.30 बजे पत्नी के घर के अन्दर जाकर मैंने अपनी पत्नी से पुनः मेरे साथ मेरे घर चलने के लिए कहा तो उसके मना करने पर गुस्से में आकर अपनी पत्नी के चेहरे पर तेजाब डाल दिया व मौके से भाग गया था । अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. अभियुक्त-इशाक पुत्र श्री मुन्ने निवासी मो0 – जुगन वाली गली मलूकपुर थाना किला जिला बरेली

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद शीशी जिससे तेजाब को लाकर पीडिता पर डाला गया था तथा जले हुए कपडे बरामद किये गये।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1- प्र0नि0 श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव
- 2- उ0नि0 इसरार अली
- 3- उ0नि0 जितेन्द्र तोमर
- 4- उ0नि0 अमित कुमार
- 5- उ0नि0 गरिमा जोशी
- 6- का0 आशीष तोमर